



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 24—जून 30, 2017 (आषाढ़ 3, 1939)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 24—JUNE 30, 2017 (ASADHA 3, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3

[PART I—SECTION 3]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमावलियों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to the Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued
by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2017

सं. 4(1)/2015/रक्षा (समारोह) (सं. 02, दिनांक _____).—1. सामान्य सेना मैडल, 1965 संस्थापित करने वाले राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं. 35-राष्ट्र/75 दिनांक 08 मई 1975, यथा समय-समय पर संशोधित, की धारा पांच के अनुसार राष्ट्रपति, सशस्त्र सेना कर्मिकों द्वारा, समुद्र में कठिन परिस्थितियों में पोत पर की गई सेवा को मान्यता देने हेतु, सामान्य सेवा मैडल के साथ पहने जाने के लिये क्लास्प "दीर्घ समुद्री सेवा" को सहर्ष संस्थापित करते हैं।

2. मैडल की पात्रता की शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

(क) भारतीय नौसेना: भारतीय नौसेना कर्मिक जिन्होंने सक्रियात्मक कार्यवाही, जैसे कि समुद्री संचार क्रम की सुरक्षा, जलदस्यु निरोधन व तटीय सुरक्षा मिशन में 3285 दिन (9 वर्ष) के संचयी सेवा पूर्ण की हो, इस मैडल के पात्र होंगे। कमिशन प्राप्त होने के बाद की अविभाज्य उड़ान सहित, सभी कार्यकाल समुद्री सेवा में गिने जाएंगे। भूमि स्थिर आरोहित स्क्वाड्रनों की सेवा समुद्री सेवा में मान्य नहीं होगी।

(ख) थलसेना: थलसेना के सभी कार्मिक जिन्हें किसी समुद्री यूनिट में 365 दिन तक तैनात किया गया हो तथा जिन्होंने युद्ध स्थल स्तर के 06 सक्रियात्मक अभ्यास (ट्रोपेक्स) में भाग लिया हो, मैडल के पात्र होंगे।

(ग) भारतीय वायु सेना: भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा के सभी कार्मिक जिन्होंने डेक पर 200 अवतरण तथा डेक से समुद्र की 300 घंटे की उड़ान की हो, मैडल पाने के पात्र होंगे। भारतीय वायु सेना के अन्य कार्मिकों की पात्रता के मापदण्ड वही होंगे जो कि थल सेना कार्मिकों के संबंध में लागू होते हैं।

3. उपर्युक्त सेवा के लिए मैडल और क्लास्प अधिसूचना सं. 35-राष्ट्र/75 दिनांक 08 मई 1975 के निहित उपबंधों के अनुसार दिये जाएंगे।

ब्रह्मानंद श्रीवास्तव
निदेशक (बी आर एवं समारोह)

सं. 4(1)/2015/रक्षा (समारोह) (सं. 03, दिनांक _____).—1. सैन्य सेवा मैडल, (सेवा मैडल) संस्थापित करने वाले राष्ट्रपति सचिवालय की अधिसूचना सं. 14-राष्ट्र/60 दिनांक 26 जनवरी 1960, यथा समय-समय पर संशोधित, की धारा पांच के अनुसार राष्ट्रपति, सशस्त्र सेना कार्मिकों द्वारा समुद्र में कठिन परिस्थितियों में पोत पर की गई सेवा को मान्यता देने हेतु, सैन्य सेवा मैडल के साथ पहने जाने के लिये क्लास्प "समुद्री सेवा" को सहर्ष संस्थापित करते हैं।

2. अवार्ड पात्रता की शर्तें निम्नलिखित होंगी :-

(क) भारतीय नौसेना: भारतीय नौसेना कार्मिक जिन्होंने सक्रियात्मक कार्यवाही, जैसे कि समुद्री संचार क्रम की सुरक्षा, जलदस्यु निरोधन व तटीय सुरक्षा मिशन में 2190 दिन (6 वर्ष) के संचयी सेवा पूर्ण की हो, इस मैडल के पात्र होंगे। कमिशन प्राप्त होने के बाद की अविभाज्य उड़ान सहित, सभी कार्यकाल समुद्री सेवा में गिने जाएंगे। भूमि स्थिर आरोहित स्कवाड्रनों की सेवा समुद्री सेवा में मान्य नहीं होगी।

(ख) थलसेना: थलसेना के सभी कार्मिक जिन्हें किसी समुद्री यूनिट में 240 दिन तक तैनात किया गया हो तथा जिन्होंने युद्ध स्थल स्तर के 04 सक्रियात्मक अभ्यास (ट्रोपेक्स) में भाग लिया हो, मैडल के पात्र होंगे।

(ग) भारतीय वायु सेना: भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा के सभी कार्मिक जिन्होंने डेक पर 100 अवतरण तथा डेक से समुद्र की 200 घंटे की उड़ान की हो, मैडल पाने के पात्र होंगे। भारतीय वायु सेना के अन्य कार्मिकों की पात्रता के मापदण्ड वही होंगे जो कि थलसेना कार्मिकों के संबंध में लागू होते हैं।

3. उपर्युक्त सेवा के लिए मैडल और क्लास्प अधिसूचना सं. 14-राष्ट्र/60 दिनांक 26 जनवरी 1960 के निहित उपबंधों के अनुसार दिये जाएंगे।

ब्रह्मानंद श्रीवास्तव
निदेशक (बी आर एवं समारोह)

RAKSHA MANTRALAYA

New Delhi, the 13th June 2017

No. 4(1)/2015/D(Cer.) (No. 02, dated _____).—1. In pursuance of Clause fifth of the President's Secretariat Notification No. 35-Pres/75, dated the 8th May 1975, instituting “Samanya Seva Medal, 1965”, as amended from time to time, the President is pleased to institute a Clasp “Long Sea Service” to be worn with “Samanya Seva Medal, 1965” for recognition of the services rendered by the armed forces personnel onboard ships under conditions of hardship at sea.

2. The eligibility criteria for the award will be as follows:-

(a) Indian Navy: Personnel of the Indian Navy who have completed 3285 days (09 years) of cumulative afloat service undertaking operations such as safety of Sea Lines of Communications, anti-piracy and coastal security missions would be eligible for the medal. All afloat tenures including those in integral flights post commissioning would be counted towards afloat service. Tenures of embarked squadrons would not be counted towards afloat service.

(b) Army: All personnel from the Indian Army who have been attached for 365 days to an afloat unit and have participated in 06 Theatre Level Operational Exercises (TROPEX), would be eligible for the medal.

(c) IAF: All Flying Branch personnel of the Indian Air Force who have undertaken 200 deck landings and 300 hrs of flying from a deck at sea, would be eligible for the medal. The eligibility criteria for other personnel of the Indian Air Force will be as in the case for Army Personnel.

3. The award of the medal and the clasp for the above mentioned service shall be governed by the provisions contained in the Notification No. 35-Pres/75, dated the 8th May 1975.

BRAHMANANDA SRIVASTAVA
Director (BR & Cer)

No. 4(1)/2015/D(Cer.) (No. 03, dated _____).—1. In pursuance of Clause fifth of the President's Secretariat Notification No. 14-Pres/60 dated the 26 January 1960, instituting the Sainya Seva Medal (Service Medal), as amended from time to time, the President is pleased to institute a Clasp “Sea Service” to be worn with “Sainya Seva Medal” for recognition of the services rendered by the armed forces personnel onboard ships under conditions of hardship at sea.

2. The eligibility criteria for the award will be as follows:-

(a) Indian Navy: Personnel of the Indian Navy who have completed 2190 days (06 years) of cumulative afloat service undertaking operations such as safety of Sea Lines of Communications, anti-piracy and coastal security missions would be eligible for the medal. All afloat tenures including those in integral flights post commissioning would be counted towards afloat service. Tenures of embarked squadrons would not be counted towards afloat service.

(b) Army: Personnel from the Indian Army who are attached for 240 days to an afloat unit and have participated in 04 Theatre Level Operational Exercises (TROPEX) would be eligible for the medal.

(c) IAF: All Flying Branch personnel of the Indian Air Force who have undertaken 100 deck landings and 200 hrs of flying from a deck at sea would be eligible for the medal. The eligibility criteria for other personnel of the Indian Air Force will be as in the case for Army Personnel.

3. The award of the medal and the clasp for the above mentioned service shall be governed by the provisions contained in the Notification No. 14-Pres/60 dated the 26 January 1960.

BRAHMANANDA SRIVASTAVA
Director (BR & Cer)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in